लिनिक प्राविक काळीवा

हिंदी श्रेंकेची एसाचार पदा

ति विश्वस्य युष्यवाद्याद सी एकाशिक 🛡

UPBIL/2021/83001

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच

को जिला एवं तहसील स्तर पर

ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन

प्रतिनिधि चाहिए

9027776991

knlslive@gmail.com

वर्ष :- 03 अंक :- 98 मुरादाबाद, 27 July 2023 (Thursday)

पृष्ठ:- 08 मूल्य: 3.00 रूपये

बिहार में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की

फायरिंग: एक की मौत-कई घायल;

बिजली आपूर्ति बंद करने का कर रहे विरोध

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

### राष्ट्रपति मुर्मु की सादगी के कायल हुए लोग, प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मिलीं

#### महामहिम, बच्चों में बांटी चॉकलेट

राष्ट्रपति दौपदी मुर्मु 25 जुलाई से ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इसी ऋम में आज वह कटक पहुंची। यहां सबसे पहले कटक चंडी मंदिर पहुंचकर उन्होंने देवी मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मंदिर के सामने भीड़ में लोगों से मिलीं और बच्चों को चॉकलेट भी दी। राष्ट्रपति से करीब से मिलकर सभी बेहद खुश हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 जुलाई से ओडिशा के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इसी ऋम में आज वह कटक पहुंची। चंडीचौक पर राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी थीं।ऐसे में लोगों के बीच में से होकर राष्ट्रपति का काफिला भी धीरे-धीरे गुजर रहा था।

राष्ट्रपति मिलकर



#### खुश हैं पायल

हालांकि, इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने वाहन से उतरीं और उनके स्वागत में खड़ी चांदनी चौक इलाके की पायल परीड़ा को चॉकलेट दी। इसके बाद पायल ने राष्ट्रपति को योग करके दिखाया। राष्ट्रपति से चॉकलेट मिलने और राष्ट्रपति से करीब से मिलने पर पायल ने खुशी जाहिर की

#### राष्ट्रपति ने देवी मां का लिया आशीर्वाद

जानकारी के मुताबिक, आज कटक पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने सबसे पहले चंडी

मंदिर पहुंचकर मां चंडी के दर्शन किए और वहां पूजा-अर्चना की। मंदिर के पास राष्ट्रपति दौपदी मुर्मु की झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। राष्ट्रपति के मंदिर पहुंचते ही एक साथ लोगों ने हुलहुली कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल प्रोफेसर

#### ओडिशा हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचीं राष्ट्रपति

इस दौरान कटक चंडी मां की सोने के वेश में सजावट की गई थी। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पंडा ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को मंदिर की रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति दौपदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से बातचीत की। बाद में राष्ट्रपति शैलवाला महिला महाविद्यालय में मधुबाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने नेताजी संग्रहालय में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

योगी आदित्यनाथ बुधवार को

सेवाश्रम चैरिटेबल हास्पिटल में

नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान

सुविधा दी है।

कटिहार में बुधवार को बिजली आपूर्ति बंद करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं पर पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें से एक के मौत होने की सूचना मिल रही है। डीएम रवि प्रकाश ने एक प्रदर्शनकारी की मौत होने की पुष्टि की है। कटिहार में बुधवार को बिजली आपूर्ति बंद करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं पर पुलिस ने फायरिंग की है। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक के मौत हो वृंदावन पहुंचे। रामकृष्ण गई है। इसके बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वहीं कैंसर रोगियों के लिए लगाई सूचना मिलने पर डीएम रवि गई पीईटी सिटी स्कैन मशीन प्रकाश मौके पर पहुंच रहे का शुभारंभ किया। इस दौरान हैं।बिहार में स्मार्ट मीटर में लोगों को संबोधित भी किया। गड़बड़ी के चलते बार-बार सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं रिचार्ज खत्म होने और भयंकर के आवागमन में उत्तर प्रदेश छह गर्मी में बिजली आपूर्ति बंद साल पहले पीछे था। प्रधानमंत्री किए जाने से बिजली उपभोक्ता त्रस्त हो गए हैं। योजना के तहत पांच लाख बिजली आपूर्ति रोकने के रुपये प्रति वर्ष इलाज की विरोध में गुस्साए लोग बारसोई में पावर सब स्टेशन पर प्रदर्शन

कर रहे थे। अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने से भीड़ उग्र हो गई, जिस पर पुलिस ने गोलियां चला दीं।

#### **SDO** फायरिंग की बात से इनकार

पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबार में एक व्?यक्ति की जान चली गई, जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक की पहचान छेतना गांव निवासी मोहम्मद खुर्शीद निवासी के तौर पर हुई है। बारसोई एसडीओ ने एक की मौत और दो लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की है, लेकिन पुलिस की ओर से की गई फायरिंग की बात से इनकार किया है। एसडीओ ने कहा कि उग्र भीड़ द्वारा पथराव में मौत और जख्मी होने की घटना

राज्य में लाठी और गोली की सरकार



■िबजली आपूर्ति बंद करने के विरोध में सड्क पर उतरे गुस्साएं उपभोक्ता। ■बारसोई में पावर सब स्टेशन पर उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई गोली। ■भाजपा नेता विजय सिन्हा पहुंचे किटहार, बोले- राज्य में लाठी-गोली की सरकार। ■माले विधायक महबूब ने की घटना की निंदा, बोले-मृतक के परिवार को मिले मुआवजा

प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की सूचना मिलने पर प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा कटिहार पहुंचे। भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में लाठी और गोली की सरकार चल रही है। बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

#### माले विधायक ने की मुआवजे की

बलरामपुर के माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोगों को भी भीड़ को नियंत्रित रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक की मौत और दो जख्मी होने की सूचना आई है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मृतक के परिवार को 20 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग

#### गणेशी लाल भी थे। CM Yogi मथुरा में बोले- छह साल में बढ़े **l**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वृंदावन के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हास्पिटल में पीईटी सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। उन्होंने यहां लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हास्पिटल मानवमात्र की सेवा को समर्पित होकर कार्य कर रही है। मुझे तीसरी बार इस हास्पिटल में आने का मौका मिला है। हर बार किसी न किसी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर मिलता है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बातें याद आती हैं। जो उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण जी से प्राप्त हुई थी। वह यह है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है।

#### धर्म कर्तव्य से जुड़ा

सीएम ने कहा कि धर्म कर्तव्य से जुड़ा है। सदाचार और अनुशासन से जुड़ा है। यदि आत्म अनुशासन नहीं है, तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वास्तव में धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हम धार्मिक हैं, तो समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं,तभी सही है। वही जीवित से अधिक वृंदावन-मथुरा में

हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। मनुष्य के अंदर यदि संवेदना नहीं है तो मानव को दानव बनने में देर नहीं लगती। जो शिव की सेवा करना चाहता है, उसे प्राणीमात्र की सेवा पहले करनी चाहिए। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, वह सच्चे मन से शिव की उपासना करता है।

सात कराड़ से आए काशी, छह करोड़ से ज्यादा

वृदावन सीएम योगी ने कहा कि इस बार सात करोड़ से अधिक

काशी में आए हैं। छह करोड़

आए। इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर धार्मिक भाव है, वह धर्म से जुड़ना चाहते हैं। महिंद्रा कोटक को इसके लिए बधाई कि उन्होंने अपने सीएसआर फंड से यहां सिटी स्कैन मशीन दी। धर्मार्थ संस्थाओं में सीएसआर फंड का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करें और धनराशि का सदुपयोग करें तो ऐसी सुविधाएं और बेहतर होंगी। सरकार हमेशा आप लोगों के साथ है।सीएम



9027776991

प्रसारित क्षेत्र - उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,छतीसगढ़ पंजाब बाकि राज्यों से जल्द प्रसारि

परिवार पर हमला करके एक व्यक्ति की मायावती ने यूपी की योगी आदित्यनाथ

जहां एक ओर योगी सरकार जीरो टालरेंस का सफाया होने का दावा करती है वहीं अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। सरकार करनी चाहिए।मायावती ट्वीट कर कहा हौसले कितने बुलन्द हैं इसका एक और क्षेत्र के रुदौली में देखने को मिला जब दलित परिवार पर हमला करके एक लोगों को घायल कर दिया। यह अति-सुप्रीमो ने यह भी कहा कि यूपी सरकार नामजद लोगों के खिलाफ तत्काल उचित ही अपराध नियंत्रण व इस प्रकार के

हत्या कर दी गई। बसपा प्रमुख सरकार पर जमकर हमला बोला। की नीति के तहत प्रदेश से अपराध बसपा चीफ ने कहा कि यहां को इस मामले में सख्त कार्रवाई कि यूपी में आपराधिक तत्वों के नमूना आज गोरखपुर के चिल्लपार अवैध खनन करने वाले गिरोह ने व्यक्ति की हत्या कर दी व अन्य कई दुःखद व अति-निन्दनीय। बसपा घटना का तुरन्त संज्ञान लेकर सभी धाराओं में सख्त एक्शन लेने के साथ सामाजिक एवं राजनीतिक अपराधों / उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लग सके, बीएसपी की यह मांग।

### मायावती का योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला,

#### बोलीं- प्रदेश में बुलंद हैं आपराधिक तत्वों के हौसले

बसपा सुप्रीमो मायावती ने गोरखपुर में हुई एक घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले किजने बुलंद है इसका एक और नमूना आज गोरखपुर के चिल्लुपार क्षेत्र के रुदौली में देखने को मिला जब अवैध खनन करने वाले गिरोह ने दलित

www.knlslive.com

#### संपादकीय Editorial

#### Discussion stuck in the rules

Parliamentary houses do not run by conditions and insistence. Neither the Prime Minister, nor any minister, nor the opposition can decide the proceedings of the House. Lok Sabha Speaker and Rajva Sabha Chairman have certain privileges. He can run the House in consultation with the 'Business Advisory Committee'. Several rules have also been made for the rest of the House. It is also the prerogative of the presiding speaker, in what form, under what rules, to accept the notice of the MP or ho can take the opinion of the majority of the house by voice vote. Now on the issue of Manipur, the Congress demands that first the Prime Minister should speak inside the Parliament and present the government' side. After that the opposition will decide on what basis to discuss. What should be the rules of discussion? This stubborn demand of the opposition within the Parliament is 'unparliamentary', as it is indirectly a no confidence motion against the Prime Minister. If in view of the violence and the burning atmosphere in Manipur, the opposition wants to move a motion of no confidence, it is its parliamentary right, but that motion will also prove futile. There is a huge majority in favor of the governmen even today. Perhaps that is why the opposition is bent upon a discussion in the Rajya Sabha under rule 267, as there is a provision for division of votes after debate Of course, the BJP-NDA does not have a majority in the Rajya Sabha, but they are not in such a minority that the opposition gets a majority. The ruling party is in favor of discussion under rule 176, under which discussion can be held only for a maximum of two and a half hours, but the chairman

The opposition is considering two and a half hours as insufficient time for Manipui regarding 'morality'. Defense Minister Rajnath Singh, however, spoke to Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, DMK MP in Lok Sabha TR Balu and Trinamool Congress Parliamentary Party leader Sudip Bandopadhyay over phone and urged them to end the impasse. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi also appealed, but the opposition is adamant on its condition and insistence that first the Prime Minister should give his statement in both the Houses. After that a decision will be taken on the discussion. On Monday, Home Minister Amit Shah also said in the Lok Sabha that the government is ready for discussion on Manipur, but don't know why the opposition is running away from the discussion. The gist is that the proceedings of the House are initiated, but after a few minutes the proceedings have to be adjourned till the next day. Will Parliament continue to function like this? Running the Parliament is considered to be the responsibility of the ruling party, because the government prepares all the Bills etc., decides the format of the House, when, what program will be held? What will be the subjects?

can extend its duration.

Which documents will be laid on the table of the House. However, the responsibility of running the Parliament rests with both the parties, as both have essential roles in a democracy. Therefore, the ruckus and deadlock inside the Parliament is not in the interest of the country. The argument cannot be accepted that the BJP created such impasses when it was in the opposition and the entire session was lost to ruckus Parliament is not a place for any kind of vindictive politics. Parliament is national However, the horrifying reality of Manipur is that around 65,000 people have been displaced. More than 5000 houses have been set on fire. Around 13,000 people have been detained in the last fortnight. There have been more than 160 deaths in Manipur Shouldn't such a burning Manipur be discussed in the Parliament?

# Opposition's priority, its attitude is telling something else

Undoubtedly, at this time the country and especially Manipur should get the same message from the Parliament that all the political parties are committed to solve the problems there. It is disappointing that when the opposition should be ready to discuss Manipur, the possibility of bringing a no-confidence motion against the government is being explored. It is clear from the discussion on bringing a no-confidence motion against the government by the opposition alliance India i.e. Indian National Developmental Inclusive Alliance that it is not interested in discussing Manipur in Parliament, but to show its strength. Perhaps that is why he is adamant on his demand that the discussion be allowed only when the Prime Minister makes a statement. This is nothing but bigotry, because so far it has been a tradition that the minister of the ministry to which the matter is related is demanded and expected to answer. Since the matter of Manipur is related to the Union Home Ministry and the Home Minister has also visited there, it is quite appropriate that he should give a statement on the peculiar situation there. Last day, he also tried to give a statement, but the opposition created ruckus. Now the Home Minister has written a letter to the leaders of the opposition in both the Houses explaining why it is necessary to discuss Manipur beyond party politics. Urging the cooperation of the opposition parties, he has also written that it is time to send a message to the people of Manipur that the Parliament is with them. Undoubtedly, at this time the country and especially Manipur should get the same message from the Parliament that all the political parties are committed to solve the problems there. It is disappointing that when the opposition should be looking forward to a discussion on Manipur, the possibility of moving a no-confidence motion against the government is being explored on its part. The opposition has the right to bring such a proposal, but after all what is necessary at this time – discussion on Manipur or show of strength in the Parliament? Looking at the attitude of the opposition, there is little chance that the Home Minister's letter will have any effect on it, as it is devoting all its energy to creating ruckus. Even though the opposition is trying to appear concerned about Manipur, its attitude is telling something else. It is not only deliberately creating such conditions that no discussion on Manipur can take place in the Parliament, but also trying to prevent any other legislative business from taking place. Many important bills are to be introduced in this session of Parliament. There is also a Bill in the form of an Ordinance on the Government of Delhi. Even though the Congress, under pressure from the Aam Aadmi Party, has said that it will oppose the ordinance, there are good reasons to believe that it does not want to create a ruckus and clarify its stand on the ordinance in Parliament. Not surprisingly, this is also a major reason for the uproar.

# Dramatic politics, how to find a middle ground for meaningful discussion on Manipur in Parliament

It is being repeatedly said by the ruling party that if the time for discussion is less and there is a need to increase it, then this work can be done, but the opposition has decided that what they are saying should happen. It seems that he is interested in telling the country that the government is avoiding discussing Manipur. It is sad, pathetic and shameful to see that Manipur is being discussed in the country and the world, but not in the Parliament of India. Petty politics and the tendency to put each other in the dock are responsible for not having this discussion. Three days of Parliament were wasted, but the discussion on Manipur could not begin. It could not happen because there is no consensus on the rules under which the discussion should take place. Will the situation in Manipur suddenly calm down by discussing the special rules? Dramatic politics, how to find a middle ground for a meaningful discussion on Manipur in the Parliament It is being repeatedly said by the ruling party that if the time for discussion is less and there is a need to increase it, it can be done, but the opposition has decided that what they are saying should happen. It seems that he is interested in telling the country that the government is avoiding discussing Manipur. Dramatic politics, how to find a middle ground for a meaningful discussion on Manipur in the Parliament - no doubt, the ruling party should show as much seriousness as the opposition in finding such a way out. It is sad, pathetic and shameful to see that Manipur is being discussed in the country and the world, but not in the Parliament of India. Petty politics and the tendency to put each other in the dock are responsible for not having this discussion. Three days of Parliament were wasted, but the discussion on Manipur could not begin. It could not happen because there is no consensus on the rules under which the discussion should take place. Will the situation in Manipur suddenly calm down by discussing the special rules? The opposition not only did not stick to the discussion on the special rule, but also did not accept that the Home Minister should initiate the discussion. He wants the Prime Minister's statement first. This stubbornness seems more like an excuse to avoid discussion, because one, the Prime Minister has already spoken on the incident in Manipur and secondly, it was not said from the ruling party that he will not say anything further on this subject. It is being repeatedly said by the ruling party that if the time for discussion is less and there is a need to increase it, then this work can be done, but the opposition has decided that what is being said on its behalf should happen. From this it seems that he is interested in showing to the country that the government is avoiding discussing Manipur. Perhaps that is why the opposition leaders are giving extra priority to protesting in the Parliament premises and raising slogans in both the Houses. When someone's priority is to raise slogans and create ruckus inside and outside the Parliament, then it can be easily understood that he has little interest in discussion. It is true that it is the responsibility of the government to run the House, but it can succeed only if the opposition is ready to find a middle ground. If both the parties wish, such a way can be found between the differences, due to which there can be a meaningful discussion in the Parliament regarding Manipur. Undoubtedly, the opposition should show as much seriousness in finding such a way out as the ruling party. By the way, it is difficult to say from the atmosphere of the Parliament that has been shown in the last few days that any concrete discussion will be possible regarding Manipur. Even if it happens, it does not seem that it will be level and convincing to the country, because all the politicians are seen in the process of baking bread. No matter how much energy political parties spend in accusing each other, they are only doing the work of disappointing the country. In fact, what is happening in the Parliament in the name of showing seriousness is no less than a farce. This spectacle is going to bring shame to the country.

# Litigative government, when will this series of date after date stop?

Can there be anything more unfortunate than governments embroiling their own people in litigation? Delay in disposal of pending cases not only weakens the faith of the people in the judicial system but also hinders the progress of the country as crores of people go round the courts instead of concentrating on their work and waste their time and money. Let's waste The fact that in 6.3 lakh cases the central government is a party is astonishing. When the central government is fighting so many cases, then it can be easily understood that the state governments will also be fighting a large number of cases. In fact, for this reason also, the number of pending cases from the lower courts to the Supreme Court is increasing. According to a recent figure, the pendency of cases in all types of courts has reached more than five crores. This figure also shows that the pendency of cases is increasing rather than decreasing – not only in lower courts, but in the High Courts and also in the Supreme Court. The pendency of cases in the lower courts is increasing at a much faster rate. Five years ago, the pendency of cases in the lower courts was 2.9 crore. Now their number has reached 4.4 crore. This situation should be a matter of deep concern, as it only shows that the judicial system is on the verge of collapse. Undoubtedly, the situation in the High Courts and the Supreme Court is also not satisfactory, because there too the number of pending cases is increasing. Shortage of judges and resources is cited as one of the reasons for the rising number of pending cases. No doubt it is a reason, but it cannot be said to be the only reason. Another major reason for the increasing burden of pending cases is the continuation of date after date. Don't know how many cases are there, which should be resolved in two-four years, but they remain pending for decades. The same is the case with the High Courts and the Supreme Court. The pendency of five crore cases means that many more people await justice, as in many cases more than one person is facing court action. This is a form of harassment by the judicial system. The sad thing is that governments are also involved in this oppression. Can there be anything more unfortunate than governments embroiling their own people in litigation? Delay in disposal of pending cases not only weakens people's faith in the judicial system, but also hinders the progress of the country, as crores of people instead of attending to work, go round the courts and waste their time and money. They waste even that. The people of the country are fed up with the frequent statements made by the policy makers that pending cases are a big problem and delay in justice is injustice, because even after raising all the concerns, the result is inconclusive. It has three leaves. After all, what is the value of that concern, which does not help in solving the problem?

चिंता - जनपद में डूबने

से मृत्यु की घटनाएं तेजी

से बढ़ रही है

मुरादाबाद- अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व युगराज

सिंह ने बताया है कि विगत दिवसों में देखा गया है कि जनपद

में डूबने से मृत्यु की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। प्राय: देखा

जा रहा है की बढ़ती गर्मी से राहत पाने हेतु घाटों∕तालाबों∕

पोखरों ∕नदी आदि में स्नान करने के दौरान बच्चो ∕किशोर ∕

किशोरियों एवं अन्य व्यक्तियों की मृत्यु डूबने के कारण हो

रही है। कई घरो के चिराग बुझ गए हैं तथा यह स्थिति सम्बंधित

परिवारों के लिए त्रासदी हैं। इन बहुमूल्य जिन्दगियों को बचाने

हेतु खतरनाक घाटों ⁄तालाबों ⁄गड्डों के किनारे न स्वयं जायें

न ही बच्चों को जाने दें। यदि तैरना जानते हों तभी नदियों ⁄

तालाबों∕घाटों के किनारे जाएँ। डूबते हुए व्यक्ति को धोती,

साडी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें तथा तैरना नही

जानते हो तो पानी में न जाएँ और सहायता के लिए पुकारें।

बच्चों को पुल∕तालाबों∕गड्डों∕तेज पानी के बहाव में स्नान

करने से रोंके। बच्चों को पुल⁄पुलिया∕उँचे टीलों से पानी में

कूद कर स्नान करने से रोकें। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो

ही नदी के किनारे जायें, परंतु नदी में उतरते समय गहराई का

ध्यान रखें। गाँव∕टोले में डूबने की घटना होने पर आस-

पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दु:खद घटना

की चर्चा अवश्य करें कि किस कारण से इस तरह की घटना

हुई और ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह की घटना फिर

कभी न हो। ए0डी0एम0 वित्त ने बताया कि डूबे हुए व्यक्ति

को पानी से निकाल कर तत्काल प्राथमिक उपचार करें जैसे

सबसे पहले देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ

फसा तो नहीं है, यदि है तो उसे निकाले। नाक व मुँह पर

उँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की

सांस चल रही कि नहीं। नब्ज की जाँच करने के लिए गले के

किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें

कि नब्ज चल रही है कि नहीं। नब्ज सांस का नहीं पता चलने

पर डूबे हुए व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर सांस

दे व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को

3-4 बार दुहराएँ। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है

व सांस चलना शुरू हो सकती है। यदि डूबा हुआ व्यक्ति

खाँस⁄बोल⁄सांस ले सकने कि स्थिति में है तो उसे ऐसा करने

के लिए प्रोत्साहित करें। मुर्झा या बेहोशी आने पर पुन: साँस

देने व छाती में दबा देने की प्रक्रिया शुरू करें। उपरोक्त

प्रिक्रिया के बाद बचाए गए व्यक्ति को अविलम्ब नजदीकी

डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।

#### मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान, अधिकारियों के आश्वासन पर खत्म

मुरादाबाद- देहात इलाके से छुटटा गोवंशीय पशु पकड़वाने और चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान जल्द दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक राजेश चौहान गुट के कार्यकर्ताओं ने चार घंटे तक एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। कई विभागों के अधिकारियों द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना स्थगित कर दिया। मंगलवार दोपहर 12 बजे भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान भाकियू अराजनैतिक राजेश चौहान गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा ने कहा कि सरकार के दावों के बावजूद ग्रामीण अंचल में बड़ी संख्या में छुट्टा गोवंशीय पशु घूमकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देहात की विद्युत लाइनों के जर्जर तार नहीं बदले जा रहे हैं और निजी विद्युत नलकूपों पर विद्युत विभाग द्वारा मीटर लगाए जा रहे हैं। बारिश के मौसम में देहात इलाके की अनेक सड़कें टूट गई हैं लेकिन लोक निर्माण विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चीनी मिलों का पेराई सत्र बंद हुए लगभग तीन माह गुजर गए लेकिन अभी तक चीनी मिलों ने समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर किसानों में रोष है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ऐलान किया कि सभी मांगें पूरी होने तक बिमियादी धरना जारी रखा जाएगा। भाकियू नेताओं की चितावनी के बाद एसडीएम अजय कुमार गौतम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को किसानों से वार्ता करने के लिए मौके पर बुला लिया और जल्द ही सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर उन्होंने धरने को खत्म करवाया। भाकियू अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह ने धरना स्थल पर शाम चार बजे ऐलान किया कि अधिकारियों के आश्वासन पर फिलहाल धरना समाप्त किया जा रहा है। 15 दिन बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी। इस दौरान भाकियू के प्रदेश सचिव अजीत बालियान, मंडल महासचिव जितेंद्र चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष रोहित चौधरी, जिला उपाध्यक्ष पंकज चौधरी, जिल महासचिव नवजीत चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता कौशल ऋांतिकारी, जिला सचिव रियासत सेफी, सतीश चौधरी, रोहित देवल, अकरम सैफी मौजूद रहे।

#### शादी के साढ़े चार माह बाद दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पति समेत पांच पर केस

मुरादाबाद- छजलैट थाना क्षेत्र में गांव फरीदपुर भेंडी में ससुराल में दीवार की खूंटी में पड़े दुपट्टे से नवविवाहिता ज्योति का शव लटका मिला। मायके वालों ने ससुरालियों पर कार और प्लॉट ने मिलने पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका के पिता ने पित सहित ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव मधुपुरी निवासी महिपाल सिंह ने बेटी ज्योति ( 24 ) की शादी 13 मार्च 2023 को छजलैट थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर भेंडी निवासी सुखराज उर्फ सोनू पुत्र रामगोपाल से की थी। शादी में उन्होंने 2.51 लाख नकद, कार व अन्य सामान दिया था। आरोप है कि ज्योति के ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। शादी के एक माह बाद से ही वह विवाहिता को परेशान करने लगे थे और दहेज मे बोलेरो कार व मुरादाबाद में प्लॉट की मांग कर रहे थे। इसे लेकर कई बार ज्योति के साथ मारपीट भी की गई थी। सोमवार शाम ज्योति के जेठ मोहन ने उसके पिता महिपाल को फोन कर बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और फोन काट दिया। जब महिपाल सिंह और उनके परिजन फरीदपुर भेंडी पहुंचे तो यहां ज्योति का शव दीवार में लगी खूंटी पर दुपट्टे से बने में फंदे में लटका था। ससुराल के सभी लोग घर फरार थे। सूचना पर पहुंची छजलैट पुलिस ने मौका मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों को जुटाया। महिपाल सिंह ने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसके पति सुखराज उर्फ सोनू, ससुर रामगोपाल सास कमला देवी, जेठ मोहन व मोनू कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की विवेचना सीओ कांठ अंकित तिवारी के द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

सुपर जोइनिंग वीक उत्तर प्रदेश;उत्तराखंड; उतीसगढ़ प्रजाब का तेजी से बढता आपका अपना दैनिक क्यूँ न लिखूँ सच 🤱 KNLS Live शाक्यकता है भारत के सभी राज्यों स 峰 रिपोर्टर-विज्ञापन प्रतिविधि की कि त्रिकार काल सकता करे

प्रसारित क्षेत्र - उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,छतीसगढ़ पंजाब बाकि राज्यों से जल्द प्रसारित

9027776991

पूर्व मंत्री अकबर हुसैन का बेटा युवती से दुष्कर्म मामले में घिरा, युवती ने एसएसपी से की कार्रवाई की मांग

मुरादाबाद/आसपास

मुरादाबाद- बसपा सरकार मे मंत्री रहे हाजी अकबर हुसैन के डॉक्टर बेटे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जिस युवती के खिलाफ पूर्व मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है अब उसने पूर्व मंत्री के बेटे पर 2011 से निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी हेमराज मीना से शिकायत की है। फरजाना नाम की जिस लड़की पर हनी ट्रैप का आरोप लगाकर युवती, उसके पिता और बुआ के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले पूर्व मंत्री के डॉकटर बेटे नईम अकबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में युवती ने आरोप लगाया है कि 2011 से प्रेम प्रसंग चलाकर निकाह का दिलासा देकर डॉक्टर शारीरिक सम्बन्ध बनाकर उसका



डालती तो डॉक्टर उसे यकीन दिलाता रहा कि वह उसे पत्नी बनाकर अपने साथ ही रखेगा। दिल्ली, चेन्नई, नैनीताल, अजमेर, कलियर उसके साथ संबंध बनाए और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी होने फरजाना का आरोप है कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शारीरिक शोषण कर रहा था। के बाद ही निकाह का जब भी शादी का दवाब अश्वासन देता रहा।आरोपी डॉक्टर पर अंतरंग पलों की अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप युवती ने लगाया है। फरजाना का आरोप है 30 जून को आरोपी डॉक्टर नईम ले जाकर कई बार डॉक्टर ने ने फोन कर उसको दिल्ली बुलाया और आनन्द विहार गर्भवती होने पर दो बार बस अड्डे से साथ लेकर होटल उसका गर्भपात भी कराया। में ले जाकर पूरी रात सम्बन्ध निकाह करने की बात पर बनाकर चेन्नई चला गया।

खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी ने युवती की शिकायत पर कुंदरकी पुलिस को जांच कर आवश्यक

परिजनों को 15 लाख रुपये का ऑफर लेकर उसके घर भेजा था। कहा था 15 लाख ले लो और प्रेम सम्बन्ध समाप्त कर लो। अगर वो राजी नहीं होती है तो वो उसे और उसके परिवार को ऊपर का रास्ता दिखा देगें या झूठे मुकदमें में फंसवा देगें। फरजाना ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि फरजाना और उसके परिजनों के खिलाफ़ बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हाजी अकबर हुसैन के पुत्र डॉक्टर नईम अकबर ने मुरादाबाद के कुंदरकी थाने में हनीट्रैप में फंसाकर 15 लाख रुपए मांगने के आरोप में युवती, उसके पिता और बुआ के

> बालू लदे डंपर ने टक्कर मार 10 मीटर तक घसीटा पीआरवी, वाहन में चालक और दो हेड कांस्टेबल थे सवार

> व्हीकल (पीआरवी) को 10 मीटर तक घसीटता हुआ पेड़ से जा टकराया। जहां खड़ी बाइक भी डंपर की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि पीआरवी में सवार तीनों पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे। लेकिन बाइक सवार घायल हुआ है। घटना कटघर थाना क्षेत्र में गुलाबबाड़ी चुंगी पर मंगलवार सुबह सात बजे की है। मामले में हेड कांस्टेबल कृष्ण पाल ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। पीआरवी कमांडर एवं हेड हो गई औ बाइक चालक भी कांस्टेबल कृष्ण पाल ने घायल हुआ। हेड कांस्टेबल बताया कि वह लोग ने बताया कि हेड कांस्टेबल पीआरवी वाहन ( 0303 ) से सुबह 7.10 बजे के दौरान सूरजनगर की ओर से हनुमान मूर्ति की तरफ आ रहे थे। तभी जिसका जिला अस्पताल में गुलाबबाड़ी चुंगी पर डंपर उपचार कराया गया। दरोगा ( यूके -18-सीए-5089 ) तेज रफ्तार से गुजर रहा था। डंपर चालक को पुलिस ने डंपर अनियंत्रित होकर उनके हिरासत में लिया है।



वाहन ( पीआरवी ) से टकरा गया।टक्कर इतनी तेज थी कि पीआरवी करीब 10 मीटर तक घिसटती रही। गनीमत रही कि सामने पिलखन के पेड़ से टकराकर डंपर रुका। वहां खड़ी बाइक क्षतिग्रस्त हरिकिशन सुरक्षित हैं। चालक जंगबहादुर के कंधे और पैर में चोट आई है। शहजाद अली ने बताया कि

## कारगिल विजय दिवस पर अमर शहीदों को किया

सृष्टि व तेजस्वी शर्मा ने हासिल किया पहला स्थान

सर्गात 😻 🔊 विश्वात

–कालेजों में कार्यक्रम आयोजित याद, स्कूल गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, मुरादाबाद- कारगिल दिवस

पर स्कूल-कालेजों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई । गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में संगीत विभाग की ओर से देशभक्ति गीत प्रतियोगिता कराई गई। जिसमें सृष्टि शर्मा व तेजस्वी शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। प्राचार्य प्रोफेसर चारु मेहरोत्रा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरुआत को। प्रतियोगिता में ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख से भर लो पानी, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ओ देश मेरे तेरी जान के सदके, आदि गीतों पर छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। इसमें सृष्टिशर्मा व तेजस्वी शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। सृष्टि को दूसरा व इशा शर्मा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। निम्मी वर्मा और रिया शर्मा को सांत्वना पुरस्कार मिला। निर्णायक मंडल में मनोविज्ञान विभाग की प्रो. करुणा आनंद और रसायन विभाग की डॉ. सविता अग्रवाल रहीं। इस दौरान उप प्राचार्य प्रो. अंजना दास, प्रो. प्रवीण सैनी, निमता शर्मा, कुमारी लिपिका सक्सेना, प्रो. अंशु सरीन, प्रो. पुनीता शर्मा, प्रो. किरण साहू, प्रो. सीमा गुप्ता, प्रो. सीमा अग्रवाल आदि मौजूद रहीं।

#### कैप्टन सौरभ कालिया समेत राष्ट्रवीरों को याद किया

मुरादाबाद। 24 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल एमएस महर के नेतृत्व में हिंदू

दी गई। साथ ही कैडेटों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर रक्षा अध्ययन विभाग के प्रोफेसर्स एवं बटालियन स्टाफ द्वारा कारगिल युद्ध पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए। कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे एवं मेजर राजेश

कॉलेज में कारगिल विजय

दिवस मनाया गया। जिसमें

शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि

अधिकारी सहित अन्य राष्ट्रवीरों को याद किया गया। प्राचार्य प्रो. एसएस रावत ने कारगिल युद्ध में सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम की चर्चा की। कार्यक्रम में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज और हिंदू कॉलेज के कैडेट्स संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। नवी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर प्रो. आनंद कुमार सिंह, कैप्टन शिवकुमार, डॉ. मनोज कुमार, पंकज सिंह, डॉ मोहम्मद साकिब, नायब सूबेदार अशोक कुमार,

हवलदार गुलाम रब्बानी, डॉ.

मदन मोहन शुक्ला, डॉ. कृति

श्रीवास्तव, डॉ. कुलदीप वर्मा, डॉ. आलोक यादव, चरण सिंह, डॉ. अनुपमा मिश्रा मौजूद रहे। संचालन और संचयन कैप्टन डॉ. राजीव चौहान और चंद्रजीत कुमार यादव ने किया।

#### कर्नल शैलेंद्र शर्मा को कैडेटों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

मुरादाबाद। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 23 यूपी बटालियन एनसीसी की ओर से महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज सिविल लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कर्नल शैलेंद्र शर्मा को एनसीसी कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कर्नल शैलेंद्र शर्मा ने शहीदों के चित्र के समक्ष चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित

इसके बाद कारगिल युद्ध लड़ने वाले कैप्टन अखिलेश सक्सेना के माता-पिता ने भी चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानाचार्य

अरुण कुमार शुक्ला एवं मेजर राजीव ढल, सूबेदार मेजर जगवंत सिंह ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। कैप्टन अखिलेश सक्सेना के पिता सीपी सक्सेना एवं माता चंद्रकांता ने अपने बेटे के बारे

कि तीन गोलियां लगने के

में बताया

बाद भी वह हिम्मत से लड़ता रहा और आखिर में उस चोटी के पर तिरंगा फहराकर ही लौटा। इस मौके पर कर्नल शैलेंद्र शर्मा ने कैप्टन अखिलेश सक्सेना के माता-पिता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही अरुण कुमार शुक्ला को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान मेजर जगवंत सिंह, ग्रंथ सिंह, आदेश कुमार, योगेश हवलदार, संतोष सिंह हवलदार, विकास पवार आदि मौजूद रहे। वहीं, 23 बटालियन एनसीसी की ओर से पार्कर इंटर कॉलेज में विजय दिवस मनाया गया। एनसीसी कैडेट ने अमर शहीदों को सलामी दी एवं

कालेज के प्राचार्य मेजर एसके

नाथ, उपप्रधानाचार्य डेविड

वाल्टर, सूबेदार हुकुम सिंह ने

पुष्प अर्पित किए।

#### क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11 असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

# शहर के मुख्य मागीं पर लगे कूड़े के ढेर



निशाकांत शर्मा क्यूँ न लिखूँ सच

मुरादाबाद- छजलैट थाना क्षेत्र में गांव फरीदपुर भेंडी में ससुराल में दीवार की खूंटी में पड़े दुपट्टे से नवविवाहिता ज्योति का शव लटका मिला। मायके वालों ने ससुरालियों पर कार और प्लॉट ने मिलने पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका के पिता ने पति सहित ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव मधुपुरी निवासी महिपाल सिंह ने बेटी ज्योति (24) की शादी 13 मार्च 2023 को छजलैट थाना क्षेत्र

रामगोपाल से की थी। शादी में उन्होंने 2.51 लाख नकद, कार व अन्य सामान दिया था। आरोप है कि ज्योति के ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। शादी के एक माह बाद से ही वह विवाहिता को परेशान करने

और दहेज में बोलेरो कार व कर रहे थे। इसे लेकर कई बार ज्योति के साथ मारपीट भी की गई थी। सोमवार शाम ज्योति के जेठ मोहन ने उसके पिता महिपाल को फोन कर बताया कि उनकी बेटी की तबीयत के गांव फरीदपुर भेंडी परिजन फरीदपुर भेंडी पहुंचे जाएगी।

निवासी सुखराज उर्फ सोनू पुत्र तो यहां ज्योति का शव दीवार में लगी खूंटी पर दुपट्टे से बने में फंदे में लटका था। ससुराल के सभी लोग घर फरार थे। सूचना पर पहुंची छजलैट पुलिस ने मौका मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों को जुटाया। महिपाल सिंह ने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसके पति सुखराज उर्फ मुरादाबाद में प्लॉट की मांग सोनू, ससुर रामगोपाल, सास कमला देवी, जेठ मोहन व मोनू कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की विवेचना सीओ कांठ अंकित तिवारी के द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि खराब है और फोन काट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के जब महिपाल सिंह और उनके बाद अगली कार्रवाई की

#### संस्था सारथी द्वारा एसीसी कांवेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन



निशाकांत शर्मा क्यूँ न लिखूँ सच

से सुंदर तथा आकर्षक मुरादाबाद- पर्यावरण संतुलन वस्तुओं का निर्माण किया, बनाए रखने एवम वेस्ट इस अवसर पर एक लिखित मेटेरियल का सदुपयोग करने प्रतियोगिता का भी आयोजन वृक्षारोपण को बड़ावा देने के किया गया, जिसमे स्कूल के उद्देश्य से सामाजिक संस्था बच्चों ने भाग लिया, तथा \*सारथी \* द्वारा एसीसी स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर कांवेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंजली मारिया तथा सारथी में आज विशेष कार्यक्रम का संस्था की प्रोग्राम कोडिनेटर आयोजन किया गया, जिसमे अरीबा खान ने स्कूल के बच्चों पर्यावरण को बड़ावा देने के के साथ विद्यालय प्रांगण में उद्देश्य तथा वेस्ट मेटेरियल पौधे लगाए, इस अवसर पर कचरे का सदुपयोग करते हुए प्रधानाचार्य सिस्टर अंजली उससे तमाम उपयोगी वस्तुओं मारिया ने कहा कि प्रकृति को बनाने के लिए एक स्कूल संतुलन के लिए पेड़ लगाना के बच्चों को विस्तृत बेहद जरूरी है, जिससे जानकारी दी गई, तथा छात्र वातावरण शुद्ध रहता है,

व छात्राओं ने वेस्ट मेटेरियल कोडिनेटर अरीबा खान ने बच्चों को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने संबंधी विस्तृत जानकारियां दीं, पर्यावरण संबंधी प्रतियोगिता में विद्यालय के तीन छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया जिनमे ऋमश वंशदीप सक्सैना, गरिमा सिंह , आयुष महाजन ने प्रथम, दुतीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिनको प्रधानाचाय सिस्टर अंजली मारिया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर अकरम खान ने डिप्लोमा प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की,

#### खेत पर काम कर रहे किसान की सर्पदंश से मौत

क्यूँ न लिखूँ सच एटा -मारहरा थानाक्षेत्र के गांव भुरिगंवा में खेत पर काम करते समय सर्पदंश से मौत हो गयी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। थानाक्षेत्र के गांव भुरिगंवा निवासी राजेश ( 25 वर्ष ) पुत्र तेजिसंह बुधवार की सांय लगभग तीन बजे अपने खेतों पर कार्य कर रहे थे। कि तभी सर्प ने काट लिया और वह

अचेत होकर गिर पड़े। साथ में



खेत पर कार्य कर रहे परिजनों की नजर जब उन पर पड़ी, तो उपचार के लिए राजेश को एटा के जिला अस्पताल ले गये। जहां चिकित्सकों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। राजेश की मौत की खबर से परिवार

में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। घटना के सम्बध में सत्यपालसिंह ने बताया, कि स्वजनों द्वारा घटना की लिखित तहरीर मारहरा थाने में दी गई है। जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु की स्पष्ट वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद सामने आ सकेगी।

#### मेडिकल कॉलेज में सुबह से दोपहर तक बड़ी भीड़ पहुंची

निशाकांत शर्मा क्यूँ न लिखूँ सच मुरादाबाद- बरसात के बाद पनपी बीमारियों ने अस्तपालों में भीड़ बढ़ा दी है। मेडिकल कॉलेज में सुबह से दोपहर तक भीड़ पहुंच रही है। सबसे अधिक परेशानी दवा लेने वाली विंडों पर है। दवा लेने के लिए एक घंटे से पहले नंबर नहीं आ रहा है। मंगलवार को लोगों में धक्का-मुक्की हो गई। महिलाएं और बच्चे परेशान दिखे। मेडिकल कॉलेज की नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अंजू ने बताया कि मंगलवार को ओपीडी में करीब 350 मरीज आए। इनमें से 300 मरीज आई फ्लू के रहे। यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। सर्दी-बुखार के साथ आई फ्लू के मरीजों की संख्या में एकदम है। से वृद्धि हो रही है। जांच और डॉक्टर को दिखाने के बाद सबसे अधिक परेशानी दवा

लेने के लिए हो रही है। दवा



एसएनसीयू में पीलिया ग्रसित नवजात शिशु भर्ती एमसीएच विंग स्थित एनएनसीयू प्रभारी डॉ. अंशुल के लिए महिला और पुरूषों गुप्ता ने बताया कि वार्ड में मौसम में गंदगी और जंक फूड को दो लोइने लग रही है। इसके पीलिया ग्रसित चार-पांच का सेवन करने से बच्चे बाद भी दवा लेने के लिए नवजात शिशु प्रतिदिन आ रहे पीलिया के शिकार हो रहे हैं। धका-मुक्की तक हो रही है। हैं। यह शिशु मौसम की वजह ओपीडी में मौजूद बाल रोग से सुबह धूप न मिलने से चिकित्सक डॉ. वैभव गुप्ता ने पीलिया ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे

फोटोथैरेपी से उपचार दिया जा रहा है। प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को वार्ड में 12 नवजात शिशु भर्ती है। इनमें से चार-पांच पीलिया ग्रसित हैं। बाल रोग ओपीडी में रोजाना रोगी एमसीएच विंग स्थित बाल रोग चिकित्सक डॉ. वैभव गुप्ता ने बताया कि ओपीडी में चार-पांच मरीज पीलिया के भी आ रहे हैं। बरसात के ओपीडी में आने वाले पीलिया ग्रसित बच्चों को वार्ड में भर्ती

### हत्या के दो दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

निशाकांत शर्मा-क्यूँ न लिखूँ सच

मुरादाबाद- जैथरा में साल 2012 में युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि पीडित नरेन्द्र कुमार पांडेय, भाई धीरेन्द्र बेटियों के साथ मिलकर मवेशियों को चरा रहे थे। इसी दौरान आरोपी उमेश चन्द्र उर्फ डब्लू पुत्र गिरीश चन्द्र, शत्रुध्न उर्फ गिल्लू पुत्र बलवीर सहाय निवासी भाऊपुरा जैथरा आ धमके थे। आरोपी घर पर आकर भाई राजेन्द्र को गाली गलौज करने लगे। भाई राजेन्द्र घर से बाहर आए। उमेश ने राजेन्द्र पर फायर कर दिया। सीने में गोली लगने से राजेन्द्र की मौत हो गई थी। मामले की रिपोर्ट थाना जैथरा में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपियों को जेल भेजने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने उमेश, गिरीश चन्द्र को दोषी माना। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 70 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए

9027776991

knlslive@gmail.com

बैठक में डीबीटी कायाकल्प निपुण भारत के बारे में एबीएसए ने दी जानकारी



लवकुश ठाकुर क्यूँ न लिखूँ सच अकराबाद - प्राथमिक विद्यालय जुझारपुर में खंड शिक्षा अधिकारी बीरेन्द्र सिंह ने चौपाल लगायी। जिसमें गांव के गणमान्य लोगों और स्कूली छात्रछात्राओं के अभिभावकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी ने डीबीटी,

कायाकल्प, निपुण भारत आदि के बारे में विस्तार से

चौपाल में ग्राम प्रधान राजन सिंह यादव , पुष्येंद्र कुमार यादव, गजेंद्र प्रताप सिंह, लक्ष्मीराज सिंह, नेहा यादव, एसएमसी अध्यक्ष उदयसिंह यादव आदि उपस्थित रहे

#### बमनोई से पंप ट्राली चोरी करने के आरोप में चार के खिलाफ रिपोर्ट

लवकुश ठाकुर-क्यूँ न लिखूँ सच

अकराबाद - थाना क्षेत्र के गांव बमनोई से की रात खेत पर खड़ी एक पंप ट्राली चोरी कर लेजाने के आरोप में गांव के ही चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गांव बमनोई निवासी देवेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है की रात समय करीब 11 बजे उसके खेत पर सिंचाई के लिए पंप ट्राली खड़ी थी। ट्राली को गांव के ही चार लोग अलीगढ़ के टेंपो से पीछे बांधकर ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही एक युवक अपने खेत में पानी लगाने जा रहा था ने चारों लोगों को रोककर कहा पंप ट्राली कहां ले जा रहे हो। शोर-शराबा होने पर)गांव से और लोग भी आ गए। उपरोक्त लोगों को पहचान लिया। गांव से अन्य लोगों को आता देख चारों लोग चोरी की हुई ट्राली को लेकर भाग गए। पंप ट्राली स्वामी ने गांव के ही चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। मामले के संबंध में थाना प्रभारी एमपी सिंह ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर पर विशाल, चमन, दिलशाद, व रविंद्र निवासी गांव बमनोई के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पंप ट्राली व चोरों चोरों की तलाश की जा रही है।

#### पानी के पाइप को डालने को लेकर दो पक्षों में मारपीट

लवकुश ठाकुर

क्यूँ न लिखूँ सच अकराबाद - थाना क्षेत्र के गांव नगला रंजीता में की सुबह सड़क में सिंचाई के लिए पाइप डालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए दौनों ओर से जमकर लाठी डंडे चल गए मारपीट मे छ: लोग घायल हुए हैं।दोनों पक्षों ने एकदूसरे के खिलाफ मारपीट की पुलिस को तहरीर दी है। गांव नगला रंजीता निवासी रोहित कुमार ने पुलिस को दी तहरीर मे बताया है कि वह अपने खेत में पानी लगा रहा था। जब तक उसका खेत भी नहीं भरा था कि विपक्षी ने उसके खेत में जा रहे पानी को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने रोक दिया जब उन्होंने विरोध घायलों को सीएचसी में किया तो आरोपियों ने भाला डाक्टरी परीक्षण कराया है।

व त्रिशूल उसके शरीर में घुसा दिया। जिससे वह लहुलुहान हो गया बचाव में आए दोनों भाइयों को भी लाठी-डंडों से मारा, आरोपित जाते जाते जान से मारने की धमकी देते हुए मोबाइल फोन छीन ले गए। वहीं दूसरे पक्ष से अशोक कुमार ने दी तहरीर में कहा है विपक्षी ने यह कहते हुए कि पानी का पाइप उसके खेत के सामने क्यों डाला है हम अपने खेत के सामने नहीं डालने देंगें।गालीगलौज करते हुए लाठी डंडों से मारनापीटना शुरू कर दिया। मारपीट में अशोक कुमार उसकी गीता देवी व बेटा विऋमसिंह के

KNLS Live सम्पर्क करे+9027776991 त्यूज़ पोर्टल बनवाये **2999' में व्यूज़ पेपर डिजाइन कराये कम दम में**  बालिका को सीसीटीवी कैमरे की मदद से खोजकर उसके परिजनों से मिलाया



निशाकांत शर्मा क्यूँ न लिखूँ सच पुलिस द्वारा फआँपरेशन मुस्कानफ के तहत घर से भटकी तीन वर्षीय बालिका को सीसीटीवी कैमरे की मदद मिलाया। वरिष्ठ पुलिस कुमार सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस

कोतवाली नगर पर सूचना प्राप्त एटा-थाना कोतवाली नगर हुई कि दिनेश नगर से 03 वर्षीय बालिका घर से खेलते खेलते कहीं गुम हो गई है, इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभारी से खोजकर उसके परिजनों से निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में अथक प्रयास कर अधीक्षक एटा श्री राजेश मासूम बालिका को सीसीटीवी कैमरे की मदद से रेलवे रोड के पास से खोजकर द्वारा घर से भटकी 03 वर्षीय उसके परिजनों के सुपुर्द किया मासूम को ऑपरेशन मुस्कान गया, बालिका को सकुशल के तहत उसके परिजनों से पाकर परिजनों द्वारा एटा पुलिस को धन्यवाद देते हुए आज दिनांक भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

26.07.2023 को थाना

#### एसएसपी की शरण में पहुचे बड़ी संख्या में ग्रामीण, एसएचओ की की शिकायत



क्यूँ न लिखूँ सच एटा-जनपद के थाना मलावन प्रभारी निरीक्षक के व्यवहार से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीण आज जनपद पुलिस मुखिया की शरण में पहुचे,

जहाँ उन्होंने लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई हैं । ग्रामीणों के अनुसार न्यायप्रिय एसएसपी ने मामले को गम्भीरता से लेकर निष्पक्ष कार्यवाई का भरोसा दिया हैं।

# **KNLS Live** सम्पर्क करे-9027776991

ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने ट्राइबल मंत्री के सामने घर से भटकी तीन वर्षीय बताया कि भवन है पूरा रह रही हैं बच्चियां अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के निरीक्षण में मिला भवन खंडहर

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर-प्रतापपुर/ आपने दुनिया में अजीबोगरीब मामला तो देखा ही होगा जिसमें कई तरह की चीजें देखने को मिलती है लेकिन यहां मामला कुछ और ही है। कल छत्तीसगढ़ शासन के नवनियुक्त ट्राइबल मंत्री मोहन मरकाम में सरगुजा संभाग मुख्यालय में आदिम जाति कल्याण विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली थी समीक्षा के दौरान वहां उपस्थित अधिकारियों ने ट्राईबल मिनिस्टर को बताया कि प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत माडीडांड में लोक निर्माण विभाग सरगुजा अंबिकापुर द्वारा वर्ष 2007 08 में 40 लाख की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण कराया है जिसमें कक्षा और आवास संचालित है इस पर वहां पर उपस्थित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर द्वारा बताया गया कि उक्त भवन अधूरा है और उसमें कक्षाएं नहीं लग रही है जिस पर ट्राइबल मंत्री ने वहां उपस्थित अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को उक्त भवन का निरीक्षण करने का आदेश दिया था जिस पर आज तत्काल मौके पर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह अपने कर्मचारियों के साथ माडीडांड स्कूल में पहुंचे वहां की स्थिति देख दंग रह गए भवन बिल्कुल अधूरा व जर्जर स्थिति में पड़ा मिला अंदर बरामदे में अरहर की खेती हुई हैं जिसे देखकर वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि



ने कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी हाईकमान का

आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप ग्रामीण क्षेत्रों से आए कई

या फैसला



तत्कालीन मंत्री वह छत्तीसगढ़ गई इस दौरान शक्कर सरकार को दूंगा निश्चित ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी जनपद त्रिभुवन सिंह टेकाम प्यारे सभा कक्ष में पक्षकारों की हुई सुनवाई पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक आज अनुविभागीय अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित दीपिका नेताम मंडल पत्रकार सभी दंग रह गए जाति आयोग के अध्यक्ष भानु संयोजक प्रमोद गुप्ता जनपद भ्रष्टाचार का यह कौन सा प्रताप सिंह ने जनपद सभाकक्ष

कारखाना के अध्यक्ष विद्यासागर सिंह जनपद अध्यक्ष जगत लाल आयाम लाल नागवंशी अनिल सिंह अधिकारियों निजामुद्दीन सीईओ

पत्रकारों से चर्चा करने के

कि मैं विधानसभा चुनाव लडूंगा या नहीं करूंगा इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं बखुबी निभा रहा हुं क्योंकि

दौरान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने एक सवाल के जवाब राकेश कुमार सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों को चेताया है कि जो यह लाइन

#### नमुना है लाखों की लागत से में आयोग का सुनवाई रखा तहसीलदार समीर शर्मा सहित मैं एक संवैधानिक पद पर हूं बनने वाले भवन में इस प्रकार जिसमें कुल 12 मामलों में अन्य विभाग के अधिकारी इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर एक विभाग के अधिकारी सुनवाई की गई 9 मामले पर कर्मचारी उपस्थित थे गंगा मैया का भी मिला कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी को आशीर्वाद

क्यूँ न लिखूँ सच ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट द्वारा महिलाओं द्वारा की जा रही गंगा आरती में पूर्णानंद घाट में महिलाओं ने पूजन-अर्चना कर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के जन्मदिवस पर की विशेष गंगा आरती। इस विशेष अवसर पर विशेष प्रार्थना पूजा व कामना की गई कि ईश्वर व गंगा माँ कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी को शक्ति दें और स्वस्थ रखें इसके साथ ही महिला साधकों ने हवन कर आहुतियां दी। पंडित हरिओम शर्मा ज्ञानी जी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कै बिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी नेतृत्व में उत्तराखंड में समृद्धि लौटेगी। बहुत प्रगति होगी, और लोगों के मुद्दों को हल किया जाएगा। गंगा मैया आपके साथ है। कै बिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी कार्यकाल में

अनेकों जनकल्याणकारी



योजनाएं प्रदेश को मिली। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीना जोशी कै बिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी को शुभकामनाएं

उनकी दीर्घायु की कामना की है। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें पहाड़ से पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करके दिखाना होगा साथ ही इसी ऋम में ऋषिकेश गंगा आरती

शक्ति व नेतृत्व को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को सराहा व सरकार की विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु शृद्धालुओं से जन संकल्प करवाया। देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिला गंगा आरती में मुख्य रूप से ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट अध्यक्ष हरिओम शर्मा ज्ञानी जी,भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीना

जोशी , ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष विशाल भट्ट, डॉ. ज्योति शर्मा, मुन्नी चौहान, गुड्डी भट्ट, बबली सकलानी, विश्वेश्वरी उनियाल, सरोजिनी बुटोला, सुनीता नेगी, नीमा पवार, सविता डोबरियाल, सरोज रावत, रजनी जोशी ,विमला गुलेरिया उर्मिला गोड़ वंदना, रीता, मंजू जोशी, आशा, रेशमा नेगी और गायत्री, गंगा दास आदि महिलाओं ने गंगा आरती की।

#### पत्नी के मायके बुलाने गया पति को ससुरालियों ने पीटा लौटकर लगा ली फांसी

लवकुश ठाकुर क्यूँ न लिखूँ सच अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी शादी के बाद उसके एक बेटा क्षेत्र स्थित नगला कलार में व बेटी हुआ। आरोप है कि एक युवक ने फांसी लगा ली। पीड़ित पिता ने ससुरालियों विवाद हुआ। गुस्सा होकर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनू (27) निवासी में कमरे में फांसी लगा ली। नगला कलार बैल्डिंग का पिता की तहरीर के आधार काम कर गुजर बसर करता था। पांच साल पहले हाजीपुर जुट गई है।

दाउद खां निवासी एक युवती से उसका विवाह हुआ था। पिछले दिनों पति-पत्नी का पत्नी अपने मायके चली गई। सोनू पत्नी को बुलाने गया था। आरोप है कि वहां ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। जिसके बाद वह अपने घर आ गया। रात पर पुलिस मामले की जांच में

#### जी टी रोड के किनारे डलवाई गई स्ट्रीट लाइट की लाइन जमीन के अंदर धसी



लवकुश ठाकुर क्यूँ न लिखूँ सच अलीगढ़ - भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सेक्टर प्रभारी सिधौली ठाकुर राकेश कुमार सिंह को जीटी रोड धनीपुर क्लासिक रेजिडेंसी के पास नगर निगम द्वारा लायन डलवाई गई है जो आज की बारिश में लाइन पूरी तरह से धस गई है पूरी बरसात का पानी जमीन के अंदर गया है काफी बीच मैं बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जो दुकानदारों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सेक्टर प्रभारी सिधौली ठाकुर

डाली गई है इसे तत्काल ठीक कराएं अन्यथा दुकानदारों को इससे भारी नुकसान पहुंचेगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जनता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी यह लाइन स्ट्रीट लाइट के लिए डाली गई है काम जारी है ठेकेदार अवर अभियंता इस कार्य को देखें अन्यथा इसकी शिकायत डीएम ब कमिश्नर से की जाएगी जनता का नुकसान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा



#### बिजली चेकिंग करने गए अधिशासी अभियंता के साथ की मारपीट किया पथराव

श्याम जी कश्यप-क्यूँ न लिखूँ सच

जालौन -जान बचाकर भागे अधिशाषी अभियंता बिजली विभाग की टीम गे साथ अधिशासी अभियंता नगरीय टीम बनाकर मोहल्ला कासिम बाग में करने गए थे चेकिंग बिजली विभाग की टीम पर मोहल्ले बासियो ने बोला हमला जमकर पिटाई की आऋोशित भीड़ ने अधिशासी अभियंता और उनकी टीम की जमकर पिटाई कर किया पथराव अधिशासी अभियंता की पिटाई कर भीड़ ने पथराव कर बिजली चेकिंग करने गई टीम को बैरग लौटाया अधिशासी अभियंता ने ᠄ नामजद और 50-60अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली फतेहगढ़ में दी तहरीर कोतवाली फतेहगढ़ के कासिम बाग का मामला

#### 27 July 2023

#### जी की सांसद अरोड़ा ने लोकप्रिय कन्हेयालाल मृत्युपरान्त नेत्रदान से दो पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा के लोगों की जिंदगी होगी रोशन निधन पर किया शोक व्यक्त

क्यूँ न लिखूँ सच देहदान कर्तव्य संस्था के सहयोग से हुआ एक और नेत्रदान देहदान कर्तव्य संस्था के सहयोग से अलीगढ के प्रमुख भाजपा नेता सुभाष लिटिल जी के पिताश्री कन्हैयालाल जी की मृत्युउपरान्त नेत्रदान से दो और लोगों की जिंदगी रोशन होगी । देहदान कर्तव्य संस्था के सदस्य भुवनेश वार्ष्णीय आधुनिक के अनुसार देहदान कर्त्तव्य संस्था के अध्यक्ष डॉ एस के गौड़ को महावीर गंज से फोन आया कि भाजपा के सुभाष लिटिल जी के पिताश्री कन्हैया लाल गुप्ता ( 78 वर्ष ) मेसर्स देवीदास श्याम लाल का नेत्रदान होना है। डॉ एस के गौड़ ने तुरंत मुहम्मद साबिर व डॉ जिया सिद्दीकी नेत्र विभाग जे एन मैडिकल कॉलेज से सम्पर्क किया। उन्होंने देरी ना करते हुए टीम को भेज सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलता पूर्वक नेत्रदान




संबोधित करते हुए कहा कि गुप्ता परिवार ने रूढ़ीवादिता से परे , लीक से हटकर मानवीय, प्रशंसनीय कार्य किया है। वहाँ उपस्थित लोगों ने परिवार की भूरि भूरि प्रशंसा की। डॉ एस के गौड़ ने जागरूक व्यक्तियों के सरल भाषा में प्रश्नोत्तर दिए। मोतियाबिन्द ऑपरेशन के बाद नेत्रदान सम्भव है? जी हाँ। इससे नेत्रदान में कोई

एकत्रित जन समृह को कर बाये आंख को बायां व दायीं को दाया लगा देते हैं। डॉ गौड़ ने नेत्रदानी परिवार को संस्था की ओर से साधुवाद कह हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अद्वितीय कार्य में दीपक गुप्ता , सुभाष गुप्ता लिटिल , भुवनेश आधुनिक , रतन वार्ष्णेय मित्र , प्रोफेसर अदीब आलम खान, डॉ मुहम्मद शाकिब , डॉ संजय, डॉ सना मरियम, अभिषेक, डॉ राहुल कुलश्रेष्ठ, फर्क नहीं पड़ता। डॉ गौड़ ने डॉ राजीव वार्ष्णेय शमीम,सी बताया कि जैसे घडी का ए अनिल वार्ष्णेय, सूबेदार शीशा (कौरनिया) को हटा सिंह राघव आदि सहयोगी बने।

#### मल्हीपुर चौराहे से भिनगा जाने वाले मार्ग राप्ती नदी जल स्तर बढ़ने के कारण सड़क कट गई है जिससे आने जाने का रास्ता अवरोध गया है

अरविन्द कुमार यादव क्यूँ न लिखूँ सच श्रावस्ती -श्रावस्ती मल्हीपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर लौकिहा मोड़ के पास बाढ़ के पानी के दबाव से मल्हीपुर भिनगा मार्ग कट गया आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है अब भिनगा मुख्यालय जाने के ालए बदला चाराहा स बरदहरा होते हुए लक्ष्मन नगर खरगौरा मोड़ से भिंनगा जाने के लिए रास्ता है जो रास्ता मल्हीपुर

करा दिया। डॉ एस के गौड़ ने



क्यूँ न लिखूँ सच

श्रावस्ती - श्रावस्ती राप्ती नदी में लकड़ी निकालते समय बालक राप्ती नदी में बहा जिसका अभी तक नहीं चला पता । थाना क्षेत्र मल्हीपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सर्राके मजरा भवसाव के निवासी सगीर पुत्री स्लाम करीब 10 साल जो सुबह राप्ती नदी में बाढ़ आने पर लकड़ी निकालने के लिए गया था और पैर फिसल गया राप्ती नदी में अधिक जलस्तर होने के कारण काफी तेज बहाव से बह गया जिसका पता समाचार लिखे जाने तक पता नहीं चला है। ग्रामीणों द्वारा नदी में बालक की तलाश किया जा रहा है परिजन में कोहराम मचा हुआ है और मातम छा गया ।



तिवारी जमुनहा ,व तहसीलदार जमुनहा अहमद मूल रूप से ग्रामीण परेशान हैं

चौराहे से भिनगा मुख्यालय फरीद खान, थाना मल्हीपुर को जाता था वह नदी के प्रभारी निरीक्षक रामपाल जलस्तर बढ़ने के कारण कट यादव अन्य लोग मौके पर गया है और रास्ता बंद हो गया पहुंचकर कटान का जायजा है जिस पर प्रशासन द्वारा बैरी लिया और लोगों को हाई केटिंग करके पुलिस तैनात अलर्ट किया कि रास्ता बंद कर पूर्ण रूप से रास्ते पर कर दिया जाए तथा वीरपुर आने जाने के लिए प्रतिबंध लौकीहा शिकारी पिपराहवा लगा दिया गया है। अब पूर्ण हिरहरपुर करनपुर जोगिया रूप से भिनगा मुख्यालय जाने आदि गांव मे पानी से घिर के लिए मल्हीपुर से बदला चुके हैं इस गांव का जनजीवन चौराहा होते हुए जाना होगा । अस्त व्यस्त है समस्त अधीनस्थ तथा मौके पर उप जिला कर्मचारी क्षेत्र लेखपाल मौके अधिकारी रामप्यारे जमुनहा, पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित जगह नायब तहसीलदार शुभम पर लाएं और बाढ़ का पानी इन गांव में भर गया है भरने से

#### बिजली की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर की मौत

प्रेमचंद जायसवाल -क्यूँ न लिखूँ सच श्रावस्ती - श्रावस्ती विकास खंड जमुनहा के चमर पुरवा के मजरा माल्ही चौराहा में सरवर अली की परचून दुकान पर मल्हीपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर कला निवासी इरशाद अली ( 16 ) पुत्र कुर्बान अली के पिता ने 9 माह पूर्व से काम पर रखा था। दुकान में बिजली कनेक्शन से तोल काटा के चार्जर को चालू करते समय बिजली के चपेट में आ कर झूलस कर गंभीर रूप से घायल हुए। आनन फानन से दुकानदार ने किशोर के परिजनों को सूचना दिया और परिजनों व ग्राम प्रधान को साथ में बहराइच मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते में मौत हो गयी। परिजनों का रो रोकर बेहाल है।

OWN STATE

सत पाल सोनी क्यूँ न लिखूँ सच लुधियाना - राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, जो दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (डीएमसीएच) मैनेजिंग सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं, ने लोकप्रिय पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, जिनका आज निधन हो गया। शिंदा का लुधियाना के डीएमसीएच में इलाज चल रहा था जहां आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। यहां एक बयान में, अरोड़ा ने कहा कि शिंदा को कुछ दिनों पहले एक अन्य से अस्पताल डीएमसीएच लाया गया था और तब से उनकी हालत



संतप्त परिवार के प्रति अपनी

सहानुभूति व्यक्त की और

उनके हिट गानों जैसे %जट्ट

जियोना मोड़%, %पुत्त जट्टां

दे% और क्रयारां दा ट्रक

बल्लिये% को याद किया।

उन्होंने आगे याद करते हुए

बताया कि मृतक गायक

%पुत्त जट्टां दे% और %उचा दर

बाबे नानक दा% जैसी पंजाबी

फिल्मों में भी काम किया था।

उन्होंने कहा कि दिवंगत

गायक को हमेशा उनके

उल्लेखनीय गायन के लिए

जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि

लुधियाना के छोटी अयाली

गांव के रहने वाले शिंदा ने न

आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि 64 वर्षीय पंजाबी गायक वेंटिलेटर पर थे। अरोड़ा ने आगे कहा कि डीएमसीएच, लुधियाना के मेडिकल स्टाफ ने सुरिंदर शिंदा की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन सर्वोच्च शक्ति के

#### केवल अपने गांव और लुधियाना बल्कि पूरे पंजाब सामने ये प्रयास काम नहीं आए। अरोड़ा ने मृतक को दुनिया भर में नाम और गंभीर होने के कारण उन्हें पंजाबी गायक के शोक नगर निगम ने एक प्रिंटिंग यूनिट को नगर निगम के सीवर लाइनों में अनुपचारित कचरा डंप करते हुए पकड़ा

क्यूँ न लिखूँ सच लुधियाना - नगर निगम की सीवर लाइनों में अनुपचारित कचरा डालने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए, नगर निकाय ने बुधवार को जनकपुरी इलाके में एक प्रिंटिंग यूनिट - मित्तल प्रिंटिंग का सीवर कनेक्शन तोड़ दिया। नगर निगम को सीवर लाइनों में रंगीन कचरा बहने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इलाके में निरीक्षण किया गया। यूनिट के सीवर कनेक्शन को तोड़ने नाले में प्रदूषण बढ़ता है। के अधिकारियों ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को मौके पर जाने और मानदंडों के अनुसार यूनिट के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। करने के लिए भी कहा। नगर

सत पाल सोनी



के अलावा, नागरिक निकाय संबंधित कर्मचारियों को अवैध गतिविधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और इस संबंध में नियमित निरीक्षण

उन इकाइयों के निगम कमिश्नर डॉ शोना खिलाफ नियमानुसार सख्त अग्रवाल ने कहा कि सीवर कार्रवाई करने के लिए लाइनों में अनुपचारित पीपीसीबी को सिफारिश भी औद्योगिक कचरे को डंप की गई है। डॉ शेना अग्रवाल करने से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ने कहा कि जून के महीने में, (एसटीपी) का काम नगर निकाय ने सीवर लाइनों प्रभावित होता है और बुड्ढा में अनुपचारित कचरे को डंप

करन क ।लए इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों के सीवर कनेक्शन भी तोड़ दिए थे। ये इकाइयां औद्योगिक क्षेत्र सी, फोकल प्वाइंट सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित थीं। हाल ही में, नगर निकाय ने एक अवैध सीवर लाइन को भी बंद कर दिया था, जिसके माध्यम से अनुपचारित रंगाई उद्योग को ताजपुर रोड पर 50 एमएलडी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ( सीईटीपी ) से एमसी सीवर लाइनों में डंप

पूर्व आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत सिंह तूर ने मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में योगदान के रूप में डीसी को 1 लाख रुपये का चेक सौंपा



सत पाल सोनी क्यूँ न लिखूँ सच लुधियाना - पूर्व आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत सिंह तूर ने आज एक नेक कदम उठाते हुए भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे बड़े प्रयासों में योगदान के रूप में उपायुक्त सुरभि मलिक को एक लाख रुपये का चेक सौंपा।उपायुक्त को चेक सौंपते हुए गुरप्रीत सिंह तूर ने कहा कि अपनी पेंशन राशि मिलना गर्व की बात है। उन्होंने अन्य भी उपस्थित थे।

अन्य पेंशनभोगियों से भी आगे आने और मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में उदारतापूर्वक दान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने पूरे पंजाब राज्य में बड़े स्तर पर तबाही मचाई है और लोगों को प्रभावित किया है और बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। उपायुक्त ने गुरप्रीत सिंह तूर द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की और कहा कि इस तरह के योगदान से संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। एडीसी ( जनरल ) से इस मानवीय कार्य में गौतम जैन, एसडीएम योगदान देने का मौका जसलीन कौर भुल्लर और

#### कैबिनेट मंत्री मीत हेयर और विधायक बग्गा द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की



सत पाल सोनी क्यूँ न लिखूँ सच लुधियाना -- विधानसभा क्षेत्र उत्तरी से विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा ने पंजाब के खेल एवं युवा सेवाएं विभाग मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर के साथ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा

विधायक बग्गा ने कैबिनेट

# लगाना चाहिए वृक्ष लगाने से

लकड़ी मिलती है इमारती लकड़ी मिलती है और फल भी प्राप्त होता है

अन्य लाभ मिलते हैं और

वर्षा में सहायक होते हैं मिट्टी कटान नहीं होती है एक वृक्ष लगाना 10 पुत्र समान है। इसलिए सभी जवानों को अपने दरवाजे खेत में और पड़ी हुई जमीनों में वृक्ष अवश्य लगाएं .।

वन विभाग द्वारा बृक्ष निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जंगल विभाग के नर्सरी से संपर्क कर वृक्ष प्राप्त कर सकते हैं

2000 वर्ग गज जमीन पर पार्क और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स क्लब बनाने पर भी चर्चा की। विधायक बग्गा ने कहा कि भू-माफियाओं ने पिछले दिनों जालंधर बाईपास के पास करीब 2000 वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिस को नगर निगम की बी एंड आर और बिल्डिंग ब्रांच के. अधिकारियों की मदद से बचाया गया। विधायक बग्गा ने कहा कि वार्ड नंबर 95 में स्पोर्ट्स पार्क देना समय की मांग है क्योंकि यहां पहले कोई पार्क नहीं है और स्थानीय निवासियों को सुबह-शाम सैर के लिए दूर-दराज के पार्कों में जाना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हमारे क्षेत्र के बच्चों और बुजुर्गों के लिए नए पार्कों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

मंत्री मीत हेयर से वार्ड नंबर

95 में मुक्त कराई गई करीब

ताज़ा खबरो

WWW.KNLSLIVE.COM

### के लिए देखे

#### युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के जवान ने किया वृक्षारोपण

क्यूँ न लिखूँ सच श्रावस्ती विकासखंड जमुना के प्रांगण में व तहसील के प्रांगण में खेल मैदान मे क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी जमुनहा अतुल कुमार प्रांतीय रक्षक दल के जवानो ने आम, नीम, बरगद ,पीपल ,आंवला, सागवान , के पौधों का बृक्षारोपण किया इस मौके पर ब्लॉक कमांडर बाबूराम पाठक जमुनहा इंदल प्रसाद, सुरेश कुमार यादव, अमेरिका प्रसाद, हंसराज वर्मा, नसीम, पृथबीपाल सिंह

,रामचरन अमिरका प्रसाद व

क्षेत्र के अन्य पीआरडी जवान उपस्थित रहे। तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी जमुनहा अतुल कुमार ने बताया कि प्रांतीय रक्षक दल जवानों को युवक

www.knlslive.com

# Should I eat mangoes during pregnancy? Know its

# advantages and disadvantages for pregnant women

Eating Mango In Pregnancy Everyone likes to eat mangoes. It is full of health with taste. Many nutrients are present in it. Elements like iron vitamin-C vitamin-A vitamin-B6 potassium folic acid are found in it. But despite all these benefits, is it safe for pregnant women to eat mangoes? So let's know whether mangoes should be eaten during pregnancy or not? During






pregnancy, a lot of care is taken in the diet. Every woman has many questions regarding food in her mind. What to eat and what not to eat during pregnancy. This thing bothers pregnant women a lot. Often a question arises in the mind about eating mangoes whether one should eat mangoes during pregnancy or not. Although pregnant women can consume all kinds of fruits, but during this time the risk of gestational diabetes increases, so many pregnant women stay away from mangoes. But should mangoes really not be eaten during pregnancy? Iron, vitamin-C, vitamin-A, vitamin-B6, potassium and folic acid are found in mangoes, which are very essential nutrients for pregnant women. Fiber is found in abundance in it, which removes the problem of constipation. There are many benefits of eating mangoes during pregnancy, but you should not eat mangoes in excess. What are the benefits of eating mangoes during pregnancy? During pregnancy, many nutrients are needed for the development of the baby. Vitamin-A and folic acid are found in mango, its consumption helps in the development of the fetus. Vitamin-A present in mango can help in maintaining bone strength and eyesight along with increasing the immunity of the body during pregnancy. Vitamin-C is also found in mangoes, which helps in absorbing iron in the body. Due to which the problem of anemia due to iron deficiency is removed. Digestion becomes a problem during pregnancy. Digestive system remains strong by eating mangoes. Fiber is also found in mango, due to which there is no problem of constipation. Magnesium is also found in mango. Which also reduces the problem of high BP during pregnancy. Do not eat excessive mangoes- During pregnancy, also keep in mind that during this time mangoes should not be eaten excessively. Consuming too much of it can also cause many problems. Like diarrhea, dehydration, headache etc.

# Do you also forget small things? Is this a health hazard?

Health Tips Often we forget small things. However, it is not necessary that we remember everything. But if you are constantly struggling with this problem then it is not a good sign for your health. Sometimes, due to lack of vitamins in the body or due to some disease, memory can also become weak. Let's know why there is a problem of forgetting? Many times it happens that we keep things and forget. After a long time we remember where we had kept that thing.



But if you always face this problem, it is not a good sign. It is not necessary that we remember everything, but if you have started forgetting every little thing, then it is not right for your health. So let's know what causes forgetfulness? Vitamin-B12-If there is a deficiency of Vitamin-B12 in the body, then you start forgetting things. Vitamin-B12 helps in making DNA and Red Blood Cells. If there is a deficiency of Vitamin-B12 in

the body, then the person starts having fatigue, weakness, memory loss. Thyroid-Thyroid Glands are very important for the development of your brain. Due to its being more active or less active, a person suffers from memory loss i.e. forgetfulness. blood clot Sometimes blood clots form in the veins. Due to which blood cannot reach your brain. Memory loss or confusion occurs when blood does not reach the brain. Sometimes there is a change in the behavior and personality of the people as well. Consumption of alcohol- If a person consumes excessive amount of alcohol on a daily basis, then it destroys your nerve cells and you do not remember things. Kidney problem- If you have kidney problem, forgetfulness can happen. Although you may not be aware of it in the early stages, a person who needs hemodialysis may show signs of amnesia. Due to head injury- If there is ever a head injury, then later there may be a problem of memory loss. At the same time, taking many medicines like antidepressants also weakens memory.

# World Hepatitis Day 2023: What is Hepatitis A, B, C, D, E? Know from the doctor who is more at risk

World Hepatitis Day 2023 World Hepatitis Day is celebrated every year on 28 July to raise awareness among people about hepatitis and its related liver diseases. Let us know in detail about the symptoms of different types of hepatitis. It is very important to identify these symptoms in time and get them treated. Hepatitis is a very serious problem related to the liver. Identifying the symptoms of which timely treatment is necessary, otherwise it can lead to liver cancer. 'World Hepatitis Day' is celebrated every year on 28 July with the aim of making people aware of hepatitis and its liver problems. Let us know about this disease in more detail. Hepatitis A, B, C, D, and E refer to diseases caused by different types of hepatitis viruses, which are related to liver-destroying infections. Each of these types of hepatitis virus infects in a different way. Learn about the different types of hepatitis. 1. Hepatitis A (HA) --



**Hepatitis A virus** (HAV) is spread through fecal-oral route, which is related to drinking dirty water and eating dirty food. This virus usually heals quickly, but some people may have symptoms for a long time. -Vaccine available for this and it can be avoided p r o management of

hygiene.2. Hepatitis B (HB) - The hepatitis B virus (HBV) is spread through blood and body fluids. This virus can spread through blood donation, drug abuse, sexual intercourse and improper use of joint medical equipment. It can be dangerous for the liver and can be serious in many cases. Vaccine is available to avoid this.3. Hepatitis C (HC) - Hepatitis C virus (HCV) is also spread through blood and is commonly spread from infected person to other person. -It is dangerous for the liver and if infected for a long time, it can damage the liver badly. Its treatment is available, but there is no vaccine.4. Hepatitis D (HD)-- Hepatitis D virus (HDV) requires individuals to be already infected with hepatitis B, as it can only be infected with the B virus. HD is also known as DD and this disease is also dangerous for the liver. 5. Hepatitis E (HE) - Hepatitis E virus (HEV) is spread through fecal-oral medium, which is related to wrong eating habits. - Its treatment is also generally cured with Ayurvedic medicine and good hygiene. Follow these methods to prevent hepatitis virus infections - Follow hygiene and hand washing. Pay attention to clean water and do not drink dirty water. Get Hepatitis B vaccine. - Contact specialist doctor for treatment and follow prescribed medicines. Note that not every person is likely to be infected with these viruses. Most of these people live without any problems throughout their lives. But if a person shows the symptoms of these diseases, they should immediately go to a doctor and get proper treatment done.

# Heathy Breakfast: Looking for a healthy option for breakfast, try Karnataka's famous Cucumber Dosa

Heathy Breakfast Breakfast is more important to be healthy than being tasty, but what is healthy is rarely that it is also tasty and if you start thinking about the test then you have to compromise with health, so today we are going to share with you. We have come up with a recipe which is healthy as well as tasty. In fact, you too must have eaten food from all parts of India and how can it be that the name of the famous dosa of South India does not figure in it. Earlier, where plain and masala dosa used to be popular, today there are many varieties of

dosa, which eating with heard the f a m o u s C u c u m b e r we are going m a k i n g specialty of not take much also very tasty. platform, Ku Meghna has quick recipe Meghna says,



people will be seen gusto, but have you name of Karnataka's Kukumber Dosa i.e. Dosa? If not, then today to tell you the recipe for Cucumber Dosa. The this recipe is that it does time to prepare and it is On the microblogging App, famous chef shared the easy and of Kheera Dosa. Chef 'Neither do many of Karnataka. To make

ingredients nor much time is required to make this famous recipe of Karnataka. To make this dosa, complete preparation can be done in a very short time and its batter is ready within about one and a half hours. It is a little less crispy than the normal dosa, but once you taste it, everyone will want to eat it again and again. Method for making Cucumber Dosa -First of all, take a cup of semolina in a bowl. Add three-fourth cup of water to it and leave it for half an hour. Now put the soaked semolina in the mixer jar. Then put chopped cucumber pieces, two tablespoons of freshly grated coconut in it. If you want, you can also put a small piece of ginger in it. Now add one teaspoon cumin and the same amount of whole coriander, a pinch of turmeric and whole red chili. Then add only two spoons of water and make its batter. - If the batter seems too thick, add some water to make it suitable for making dosa. Then add salt as per taste and green chopped coriander if desired. Now after heating the griddle lightly, apply some oil and wipe it with the help of a tissue. Now just pour the batter and spread it evenly across the pan. Cover it and leave it to cook on medium flame. Then apply a little oil on its top side. Now flip the dosa and bake it on the other side as well. Your Tasty Cucumber Dosa is done. Keep making more dosas like this and keep on feeding. It is slightly crispier than normal dosa, but tastes great.

www.knlslive.com

## Karan Johar is being praised Korean pop music 'New for Rocky Aur Rani Kii Prem Jeans' in Billboard Hot 100, many stars to the film

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani Celeb Reviews The film Rocky and Rani's love story premiered late night in Mumbai. Alia Bhatt, Ranveer Singh, Gauri Khan, Malaika Arora, Seema Sajdeh, Ananya Panday, Chunky Pandey, Shabana Azmi and Jaya Bachchan were among many other celebs who attended. Now on social media, celebs have shared their



respective reviews about the film. The premiere of Alia Bhatt and Ranveer Singh's romantic comedy Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani took place in Mumbai on Tuesday evening. The star-studded night was attended by Alia Bhatt, Ranveer Singh, Gauri Khan, Malaika Arora, Seema Sajdeh, Ananya Panday, Chunky Pandey, Shabana Azmi and Jaya Bachchan among others. Now celebs have shared their reviews about the film on social media. Gauri Khan has given so many stars to the film – everyone from Gauri Khan to Malaika Arora has shared their reviews about the film on their Instagram stories. Gauri Khan shared a photo of herself, Seema Sajdeh, Malaika Arora and Karisma Kapoor, among others, and wrote the caption, "5 stars to Rocky and Rani. Abhishek Bachchan ne kahi aisi baat - Abhishek Bachchan's mother Jaya is also seen starring in the film. The actor used to turn up late at night to watch the film. Now, the actor took to his Instagram Stories story to write about Rocky and Rani's love story, a "complete and complete family entertainer". Is back to doing what he does best." The actor tagged the star cast of the film and congratulated them. Alia's mother-in-law Neetu Kapoor also praised- Alia Bhatt's mother-in-law Neetu Kapoor also shared the poster of the film on Instagram Stories and wrote, "A complete entertainer full of amazing performances by all the actors. Alia is shining, looking very beautiful.'' Karan Johar you are a true master. Amazing performances by Alia Bhatt, Ranveer Singh and what a delight to watch on screen with the legendary Dharmendra, Shabana Azmi and Jaya Bachchan.It is all set to release in theaters on 28th July. Now have to see how fans like it.

# Kahaani, celebs gave so know-at which number are the songs of the album?

K Pop group New Jeans New Jeans reached a new career high on the Billboard Hot 100 chart. The popularity of K-pop artist in India is increasing day by day. Nowadays everyone



is seeing a lot of craze for Korean movies and series. In this sequence, New Jeans Group, which has made its huge fan following around the world, has made its entry in Billboard. Korean drama or Korean pop music, the number of people who like it in India is not less. Along with BTS, the group New Jeans is also ruling the hearts of the people and with this, the songs of the film have started entering the music charts. Coming into the public eye a few months back, the K-Pop group has managed to make everyone go crazy. Super Shy's song New Jeans has reached a new career high on the 'Billboard Hot 100' chart at number 64. As of the new chart issued by Billboard on July 25, "Super Shy" debuted at number 64. It is one of the triple title tracks of New Jeans second mini album Get Up. "Super Shy" was prereleased on July 7 KST and debuted at number 66 on the Hot 100 last week, having now jumped to number 64. New Jeans has surpassed the tracks of its own two previous songs, 'OMG' (74th) and "Ditto" (82nd). Ever since the release of this album, its fan following has been increasing ever since. 'New Jeans' group - Let us tell you that 'New Jeans' is a Korean group, which consists of 5 artists. This group is created by Hype Level Agency and was launched on 1st August 2022. There are all girls in this group and their names are- Kim Minji (Minji) Honey (Hanni) Danielle (Danielle) Haerin (Haerin) Lee Hye-in (Hyein) Some famous songs of this album of K Pop, Including: Attention Cookie Hype Boy Hurt OMG Ditto This isn't the first time a Korean group has become so popular. Before this, BTS is often in the news. Even today it is increasing its fan following in the younger generation. Nowadays everyone is seeing a lot of craze for Korean movies and series. The biggest proof of this is 'Squid Game', which was a South Korean survival 'K drama'. Seeing its popularity, the makers are soon going to bring its second part in front of the audience.

### Samantha Ruth Prabhu was licked by a monkey on her Bali vacation, took the actress' glasses

Samantha Ruth Prabhu actress is holidaying in Indonesia with her friend Anusha Swamy. Samantha is constantly sharing pictures and videos of her vacation from Bali. On this vacation, something happens with the actress, of which she has shared videos and photos. The actress had gone on a trip to Uluwatu in Bali with her friend Anusha. Samantha Ruth Prabhu is away from the screen these days. Recently, the actress also announced her break. During this, she told that she is going on a break for about a year. These days the actress is holidaying in Indonesia with her friend Anusha Swamy. Samantha is constantly sharing pictures and videos of her vacation from Bali. Something happens with the actress on this vacation, of which she has shared videos and photos. The monkey took away the glasses of the actress- The actress encounters a lot of monkeys while on vacation. He also shared a video of monkeys on his

Instagram story. Actually, the actress had gone on shared many pictures of this road trip. During this, his head and black glasses were on his eyes. In a glasses. She has shared a photo, in which she is behind. The actress has built her heart around this time I saw my shades was here,' writes Samantha. man tries to take them back from the monkey. good.' Talking about the work front of the actress, both of these films have flopped on screen. Now soon he had finished shooting for this web with her friend Anusha Swamy. Samantha is On this vacation, something happens with the had gone on a trip to Uluwatu in Bali with her friend days. Recently, the actress also announced her a year. These days the actress is holidaying in sharing pictures and videos of her vacation from



a trip to Uluwatu in Bali with her friend Anusha. Both have Samantha is seen in an olive green color dress. He has a hat on video clip, Samantha told how a monkey ran away with her posing with friend Anusha, while a monkey is seen peeping from clever monkey. 'Monkey's choice is good' - Samantha - 'The last In the next video, the monkey is seen holding his glasses while a Samantha has written on this clip, 'Okay ... her choice is really two of her recently released films 'Yashoda' and 'Shakuntalam', she is going to be seen in 'Citadel' with Varun Dhawan. Recently, series.Samantha Ruth Prabhu actress is holidaying in Indonesia constantly sharing pictures and videos of her vacation from Bali. actress, of which she has shared videos and photos. The actress Anusha. Samantha Ruth Prabhu is away from the screen these break. During this, she told that she is going on a break for about Indonesia with her friend Anusha Swamy. Samantha is constantly Bali. Something happens with the actress on this vacation, of which

she has shared videos and photos. The monkey took away the glasses of the actress- The actress encounters a lot of monkeys while on vacation. He also shared a video of monkeys on his Instagram story. Actually, the actress had gone on a trip to Uluwatu in Bali with her friend Anusha. Both have shared many pictures of this road trip. During this, Samantha is seen in an olive green color dress. He has a hat on his head and black glasses were on his eyes. In a video clip, Samantha told how a monkey ran away with her glasses. She has shared a photo, in which she is posing with friend Anusha, while a monkey is seen peeping from behind. The actress has built her heart around this clever monkey. 'Monkey's choice is good' - Samantha - 'The last time I saw my shades was here,' writes Samantha. In the next video, the monkey is seen holding his glasses while a man tries to take them back from the monkey. Samantha has written on this clip, 'Okay ... her choice is really good.' Talking about the work front of the actress, two of her recently released films 'Yashoda' and 'Shakuntalam', both of these films have flopped on screen. Now soon she is going to be seen in 'Citadel' with Varun Dhawan. Recently, he had finished shooting for this web series.